

10 अक्टूबर, 2018

पांडव भवन, करोल बाग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंच पर मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेयरर्स एवं स्पोर्ट्स के रिसर्च आफिसर भ्राता नीरज कुमार, रेसलिंग कोच भ्राता राज कुमार मेजर ध्यान चंद एवार्डी, पांडव भवन की डायरेक्टर राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी, बी के विजय बहन एवं दिनेश भाई मंच पर उपस्थित थे।

नीरज मेहरा ने स्पोर्ट्स के बारे में बताते हुए कहा कि योग से ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव हो सकता है।

राजकुमार जी ने पहलवानों व अन्य स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी राजयोगी को उपयोगी बताया।

दीप प्रजवल्लन में स्पोर्ट्स की कई जानी मानी हस्तियों ने भी भाग लिया : भ्राता पवन चिल्लर (बीः जेः पीः युवा मोर्चा अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ), पदम सिंह चौहान (दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन फिजीकली चैलेन्जड), भ्राता सोहन अटल (जुडो कोच स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इन्डिया) एवं भ्राता भगवत प्रशाद गुप्ता (कोच फार कासबो), मिसेज सुनीता खुराना स्पोर्ट्स पर्सन आदि

पांडव भवन की डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी बी के पुष्पा दीदी जी ने स्पोर्ट्स के लिए एकाग्रता आत्मविश्वास एवं निर्णय शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। राजयोग का खेलों में प्रयोग करने का सुझाव भी दिया।

बी के विजय बहन ने स्पोर्ट्स विंग की बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बी के राजीव भाई ने संस्था का परिचय दिया। कुमारी दिव्यांशी प्रत्यांशी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। मंच संचालन बी के दिनेश द्वारा किया गया।

अंत में वक्तागणों को ईश्वरीय सौगात तथा सभी मेहमानों साहित्य एवं प्रशाद देकर जलपान कराया गया।